



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 216 राँची, शुक्रवार,

9 मार्च, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

13 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/आरोप-1-154/2017 का.-12173-- श्रीमती श्वेता वेद, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सतगावाँ, कोडरमा के विरुद्ध उपायुक्त, कोडरमा के पत्रांक-518/स्था०, दिनांक 9 सितम्बर, 2017 द्वारा बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने तथा सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र- 'क' में गठित कर उपलब्ध कराते हुए इन्हें निलंबित एवं विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी है ।

2. उक्त आरोपों हेतु श्रीमती वेद से विभागीय पत्रांक-11179, दिनांक 7 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु दो माह बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया ।

3. अतः उपायुक्त, कोडरमा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती वेद को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

4. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची निर्धारित किया जाता है । जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
